

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 सितंबर 2022

### प्रश्न -1

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) कार्यक्रम ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं?

- A) 07 साल
- B) 08 साल
- C) 09 साल
- D) 10 साल

**सही उत्तर: B**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने हाल ही में अपना आठवां वर्ष पूरा किया है।

### प्रश्न -2

यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे और RPF द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था?

- A) ऑपरेशन महिला सुरक्षा
- B) ऑपरेशन सतरकता
- C) ऑपरेशन विजय
- D) ऑपरेशन यात्री सुरक्षा

**सही उत्तर: D**

यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के साथ मिलकर एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 सितंबर 2022

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक 'टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम' खुलने वाला है?

- A) बिहार
- B) उत्तर प्रदेश
- C) उत्तराखंड
- D) पश्चिम बंगाल

**सही उत्तर: D**

दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारतों में से एक 'टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम' पश्चिम बंगाल के मायापुर में खुलने वाला है।

### प्रश्न -4

'मनीएंडमी' एक नई निवेशक शिक्षा और जागरूकता वेबसाइट किस निम्नलिखित म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा हाल ही में शुरू की गई थी?

- A) एक्सिस म्यूचुअल फंड
- B) एडलवाइस म्यूचुअल फंड
- C) PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड
- D) ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड

**सही उत्तर: C**

PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने घोषणा की है कि उसने 'मनीएंडमी' नामक एक नई निवेशक शिक्षा और जागरूकता वेबसाइट लॉन्च की है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 सितंबर 2022

### प्रश्न -5

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने निम्नलिखित में से किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने का फैसला किया है?

- A) कोलंबो, श्रीलंका
- B) जकार्ता, इंडोनेशिया
- C) कुआलालंपुर, मलेशिया
- D) मनीला, फिलीपींस

**सही उत्तर: C**

राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस संगठन में अनंत नारायण गोपालकृष्णन को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) NABARD
- B) RBI
- C) SEBI
- D) SIDBI

**सही उत्तर: C**

SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (SPJIMR) के एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण गोपालकृष्णन को पूंजी बाजार नियामक SEBI का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 सितंबर 2022

### प्रश्न -7

10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (SAREX) 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?

- A) चांदीपुर, ओडिशा
- B) जूनागढ़, गुजरात
- C) मुंबई, महाराष्ट्र
- D) चेन्नई, तमिलनाडु

**सही उत्तर: D**

10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (SAREX) 2022 चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा आयोजित किया गया था।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन विश्व आर्थिक मंच (WEFS) कि क्लियर स्काईज फॉर टुमॉरो (CST) अभियान में शामिल हुई?

- A) एयरएशिया इंडिया
- B) फर्स्ट गो
- C) इंडिगो
- D) स्पाइसजेट

**सही उत्तर: C**

देश की सबसे बड़ी वाहक इंडिगो ने घोषणा की है कि वह विश्व आर्थिक मंच (WEFS) के नेतृत्व में एक पहल क्लियर स्काईज फॉर टुमॉरो (CST) में शामिल हो गई है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 सितंबर 2022

### प्रश्न -9

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी नई सावधि जमा योजना शुरू की है?

- A) महा धनी
- B) महा धनवर्षा
- C) महा सुप्रीम
- D) महा युवा

**सही उत्तर: B**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा "महा धनवर्षा" सावधि जमा योजना के रूप में जानी जाने वाली एक नई सावधि जमा अवधि की घोषणा की गई है।

### प्रश्न -10

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है?

- A) लैरी पेज
- B) जेफ बेजोस
- C) बिल गेट्स
- D) गौतम अडानी

**सही उत्तर: D**

गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह पहली बार है जब कोई एशियाई ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के टॉप-3 में पहुंचा है, जिसकी कुल संपत्ति 137.4 बिलियन डॉलर है।